

Specimen Joint Affidavit for Change of name of woman due to Marriage
विवाह के कारण महिला के नाम परिवर्तन के लिए संयुक्त शपथ-पत्र का नमूना

We हम 1. (Maiden name of wife) (पत्नी का विवाहपूर्व नाम)
2..... (Name of husband) (पति का नाम)

Solemnly declare and affirm as under:
सत्यनिष्ठा से निम्नतः घोषणा और पुष्टि करते हैं:

1. That we are married under..... Marriage Act/Rights/Customs and are living together as married couple since.....
(date of marriage)
कि हमने विवाह अधिनियम/ अधिकार/ रीति-रिवाज के अंतर्गत विवाह किया है और (विवाह तिथि) से
हम विवाहित जोड़े के रूप में एक साथ रह रहे हैं।

2. That..... (Maiden name of wife) would henceforth be known as
.....(Name of wife after marriage) by virtue of our marriage.
कि हमारे विवाह के आधार पर (पत्नी का विवाह पूर्व नाम) अब आगे से
.....(विवाह के बाद पत्नी का नाम) के नाम से जानी जाएगी।

3. That our joint photograph is affixed below./कि हमारा संयुक्त फोटोग्राफ नीचे चिपकाया गया है।

Date दिनांक:

Signature of Deponent/गवाह के हस्ताक्षर

1.....

2.....

Note: / नोट:

- 1. This affidavit should be sworn before a Magistrate / इस शपथ-पत्र के संबंध में किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ लेना होगा**
- 2. The joint photograph of the couple is to be pasted on the bottom left hand side of the affidavit paper and attested by the magistrate with his/her signature and rubber stamp (half on the photograph and half on the affidavit). / विवाहित जोड़े की संयुक्त तस्वीर शपथ-पत्र दस्तावेज़ के नीचे बायीं ओर चिपकाना और मजिस्ट्रेट द्वारा अपने हस्ताक्षर और रबर स्टाम्प (आधा शपथ-पत्र पर और आधा फोटोग्राफ पर) के साथ सत्यापित करना होगा।**

Declaration, if this form is signed in Vernacular/Thumb Impression:

I, _____ son / daughter of _____, an adult residing at _____ hereby declare that the contents of this form have been duly explained to me in _____ language and have been understood by me.

(Signature of the customer) _____ Date _____ Contact No. _____

घोषणा, यदि यह फॉर्म मातृभाषा में साइन किया गया हो अँगूठे का निशान:

मैं, _____ का पुत्र/की पुत्री, _____ की निवासी एक वयस्क एतद् द्वारा यहां घोषित करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र की सामग्री को मुझे पूरी तरह से _____ भाषा में समझाया गया है और मैंने समझ लिया है.

(ग्राहक के हस्ताक्षर) _____ दिनांक _____ संपर्क नं. _____

Instruction & Disclaimer:/ निर्देश और अस्वीकरण:

- Kindly fill in the details in Hindi/English only.
कृपया विवरण केवल हिंदी/अंग्रेज़ी में ही भरें.
- In the event of any disagreement in interpreting the content, English version will prevail.
सामग्री की व्याख्या करने में किसी भी असहमति की स्थिति में, अंग्रेज़ी संस्करण ही प्रबल होगा